प्रपत्र-II
FORM-II

स्टाफ नंः	
STAFF NO	
(ब्ल्यू बुक के मुताबिक)	
(As per Blue Book)	,

भारतीय दूरसंचार सेवा, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा भवन निर्माण कार्य सम्बधी अधिकारियों के लिए (कनिष्ठ, वरिष्ठ समयमान व कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन

ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT For

Officers of the Indian Telecommunication Service Indian P&T Accounts and Finance Service Indian P&T Building Works (JTS, STS AND JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE)

अधिकारी का नाम	
Name of Officer	
जन्म तिथि	
Date of the Birth	
समाप्त होने वाले वर्ष / अवधि की रिपोर्ट	
Report for the year/period ending	
Neboli idi ilie veal/belida elialila	

मंत्रालय / विभाग Ministry/Department of		
प्रपत्र Forr		
कनिष्ठ, वरिष्ठ समयमान व कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा अधिकारियों व Annual Performance Appraisal Report of JAG,		
समाप्ति वर्ष / अविध का प्रतिवेदन Report for the year/period ending		
वैयक्तिक PERSONAI	** *	
भाग— 1 PART-1		
(मंत्रालय / विभाग / कार्यालय के संबंधित प्रशासनिक अनुभाग द्वारा भरे जाने के लिए) (To be filled by the Administrative Section concerned of the Ministry/Department/Office)		
1 अधिकारी का नाम Name of Officer		
2 जन्म की तारीख (दिन / माह / वर्ष) Date of Birth (DD/MM/YYYY)	(शब्दों में) (In Words)	
3 वर्तमान श्रेणी में लगातार नियुक्ति की तारीख Date of continuous appointment to the present grade	दिनांक Date	श्रेणी Grade
4 वर्तमान पद तथा उस पर नियुक्ति की तारीख Present post and date of appointment thereto	पद Post	दिनांक Date
5 वर्ष में कार्य से अनुपस्थित की अवधि (छुट्टी प्रशिक्षण आदि पर) यदि उक्त अधिकारी ने प्रशिक्षण लिया है तो उसका विवरण दें। Period of absence from duty (on training leave etc.) during the year, If he has under gone training specify.		

Name of the Offi	cer
रिपोर्ट की अवधि : Reporting Period	
	ास अधिकारी का प्रतिवेदन लिखा जाना है, उसके द्वारा भरे जाने के लिए o be filled in by the Officer reported upon
	(कृपया प्रविष्टियों को भरने से पहले अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें) (Please read carefully the instructions before filling the entries)
1- किये गये कार्यों Brief description	
	य / उद्देश्य / ध्येय आपने स्वयं अपने लिए निर्धारित किये हों, या आपके लिए निर्धारित किये गये 11त्रा या अन्य रूप में) कार्यो की आठ—दस मदें प्राथमिकता के आधार पर बनाएं और हरेक लक्ष्य उपलब्धि बताएँ ।
	argets/objectives/goals (in quantitative or other terms) of work you set for yourself for you, eight to ten items of work in the order of priority and your achievement
or that were set against each targ लक्ष्य / उद्देश्य /	argets/objectives/goals (in quantitative or other terms) of work you set for yourself for you, eight to ten items of work in the order of priority and your achievement get.
or that were set against each targ	argets/objectives/goals (in quantitative or other terms) of work you set for yourself for you, eight to ten items of work in the order of priority and your achievement get.

यदि लक्ष्य की प्राप्ति म कोई बाजाएँ रही हो तो वे बताएं। (A) Please state briefly, the shortfalls with reference to the targets/objectives/goals referred to in item 2. Please specify constraints, if any, in achieving the targets. (a) कृपया उन मदों का भी उल्लेख करें जिनमें काफी अधिक उपलब्धियां रही हैं और उनमें अपने योगदान का भी उल्लेख करें (B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तरीख दी काण । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वयं देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर 5 ignature of officer reported upon	3- (अ) कृपया मद 2 में बताए गए लक्ष्यों / उद्देश्यों / ध	
Please specify constraints, if any, in achieving the targets. (ब) कृपया उन मदों का भी उल्लेख करें जिनमें काफी अधिक उपलब्धियां रही हैं और उनमें अपने योगदान का भी उल्लेख करें (B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कंलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात केलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31" January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.	यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई बाधाएँ रही हो तो वे बताप	
(a) कृपया उन मदों का भी उल्लेख करें जिनमें काफी अधिक उपलब्धियां रही हैं और उनमें अपने योगदान का भी उल्लेख करें (B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 days of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	Please specify constraints, if any, in achieving the ta	argets.
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक स्वना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	(ब) कृपया उन मदों का भी उल्लेख करें जिनमें काफी	अधिक उपलब्धियां रही हैं और उनमें अपने योगदान का भी
(B) Please also indicate items in which there have been significantly higher achievements and your contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.		
contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.		
contribution thereto. 4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.	(B) Please also indicate items in which there h	ave been significantly higher achievements and your
4- कृपया उल्लेख करें कि क्या पूर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात कैलैण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		
कैलेण्डर वर्ष से उत्तरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी तक दर्ज करा दी गई थी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	4- कपया उल्लेख करें कि क्या पर्ववर्ती कैलैण्डर वर्ष	की अचल संपत्ति वार्षिक विवरणी निर्धारित तारीख अर्थात
तारीख दी जाए । Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.	कैर्रीएडर वर्ष से उन्हरवर्ती वर्ष को 31 जनवरी वक दर्	र्न करा टी गई शी । यदि नहीं तो विवरण दर्ज कराने की
Please state whether the annual return on immovable property for the preceding calendar year was filed within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given.		म प्रता या गर् जा । बाय गरा ता विवरन यूज प्रतान यम
within the prescribed date i.e. 31 st January of the year following the calendar year. If not, the date of filling the return should be given. Caritary Carita	• •	11
the return should be given.		
दिनांक सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर		ear following the calendar year. If not, the date of filling
e,	the return should be given.	
e,		
e,	दिनांक	सूचना देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
	Date:	• •

अधिकारी का नाम	
Name of the Officer	
रेपोर्ट की अवधि	-
गाग— 3 PART-3	

संख्यात्मक वर्गीकरण का निर्धारण प्रतिवेदन तथा पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी किया जाना है जो 1–10 के पैमाने पर होना चाहिए, जहाँ 1 सबसे कम श्रेणी का तथा 10 उच्चतम श्रेणी का उल्लेख करता है ।

Numerical grading is to be awarded by reporting and reviewing authority which should be on a scale of 1-10, where 1 refers to the lowest grade and 10 to be highest.

(कृपया प्रविष्टियों को भरने से पहले दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ लें) (Please read carefully the guidelines before filling the entries)

(अ) कार्य निष्पादन का मूल्यांकन (इस भाग का भार 40% होगा)

(A) Assessment of work output (weightage to this Section would be 40%) प्रतिवेदन पुनर्विलोकन प्राधिकारी पुनर्विलोकन प्राधिकारी के प्राधिकारी (संदर्भ भाग–5 का पैरा 2) आहाक्षर Reporting Reviewing Authority Initial of Reviewing Authority (Refer Para 2 of Part-5) Authority. i) पूर्वनियोजित कार्य की परिपूर्णता / विषय के आधार पर आवंटित किया गया कार्य Accomplishment of planned work/work allotted as per subjects allotted ii) कार्य निष्पादन की कोटि Quality of output iii) विश्लेषणात्मक योग्यता Analytical ability iv) अपवादात्मक कार्य की परिपूर्णता / किये गए अप्रत्याशित कार्य Accomplishment of exceptional work/unforeseen tasks performed निर्गत कार्य पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण Overall Grading on 'Work output'

(ब) व्यक्तिगत विशेषताओं का मूल्यांकन (इस भाग का भार 30% होगा)

(Assessment of personal attribu	ites (Weightage to)
	प्रतिवेदन प्राधिकारी Reporting Authority	पुनर्विलोकन प्राधिकारी (संदर्भ भाग–5 का पैरा 2) Reviewing Authority (Refer Para 2 of Part-5)	पुनर्विलोकन प्राधिकारी के आद्यक्षर Initial of Reviewing Authority.
i) कार्य की अभिवृत्ति			
Attitude to Work			
ii) जिम्मेदारी का बोध			
Sense of responsibility			
iii) अनुशासन का अनुरक्षण			
Maintenance of Discipline			
iv) संप्रेषण क्षमताएं			
Communication skills			
v) नेतृत्व गुण			
Leadership Qualities			
vi) दल की भावना में कार्य करने की क्षमता			
Capacity to work in team spirit			
vii) समय सारिणी का अनुसरण करने की क्षमता			
Capacity to adhere to time schedule			
viii) परस्पर व्यक्तिगत संबंध			
Inter-personal relations			
ix) समग्र छवि एवं व्यक्तित्व			
Overall bearing and personality			
व्यक्तिगत विशेषताओं पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण			
Overall Grading on 'Personal Attributes'			

अधिकारी का नाम Name of the Officer			
रिपोर्ट की अवधि ————————————————————————————————————			
(स) प्रकार्यात्मक सक्षमता का (C) Assessment of Functional Comp			
	प्रतिवेदन प्राधिकारी Reporting Authority	पुनर्विलोकन प्राधिकारी (संदर्भ भाग-5 का पैरा 2) Reviewing Authority (Refer Para 2 of Part-5)	पुनर्विलोकन प्राधिकारी के आद्यक्षर Initial of Reviewing Authority.
नियम / विनियम / कार्य एवं योग्यता के क्षेत्र में प्रक्रियाऍ एवं उनके सही प्रयोग की जानकारी Ínowledge of Rules/Regulations/Procedures in the rea of function and ability to apply them correctly.	riamoniy		
) नीतिबद्घ योजना बनाने की क्षमता Strategic planning ability i) निर्णय लेने की क्षमता			
Decision making ability /) समन्वय क्षमता Coordination ability) अधीनस्थ को प्रेरित एवं विकसित करने की क्षमता Ability to motivate and develop subordinates			
i) पहल शक्ति Initiative कार्यात्मक सक्षमता पर कुल मिलाकर श्रेणीकरण Overall Grading on 'Functional Competency'			
भाग – 4 सामान्य PART-4 GENEF	RAL		
1- जनता के साथ भागीदारी (जहाँ भी प्रयोज्य) Relations with the public (Wherever applie (जनता की आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व एवं अ (Please comment on the officer's accessibility to the	धिकारी तक उ		
2- प्रशिक्षण Training (कृपया अधिकारी प्रभाविता एवं कार्य क्षमताओं में और अधिक र (Please give recommendations for training with a view			
officer.)			

3- स्वास्थ्य की स्थिति	
State of health	
4- सत्यनिष्ठा	
Integrity (कृपया अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	चें ।∖
(Please comment on the integrity of the o	
5- प्रतितेदन अधिकारी टाग अधिकारी की ग्रम	स्त विशेषताओं की तस्वीर (लगभग 100 शब्दों में), जिसमें सामर्थ्य क्षेत्र एवं कम
	ि असफलताओं (संदर्भः भाग—2 का 3 (अ) एवं 3(ब) एवं दुर्बल वर्गो के प्रति
अभिवृत्ति शामिल हो ।	1 614 12 11 2 11 6 (61) 34 6(4) 34 340 411 42 310
Pen picture by Reporting Officer (in about	100 words) on the overall qualities of the officer including area of strengths
and lesser strength, extraordinary achieves weaker sections.	ments, significant failures (ref; 3(A) & 3(B) of Part-2) and attitude towards
weaker sections.	
	में दिए गए भारांश के आधार पर कुल मिलाकर संख्यात्मक वर्गीकरण । weightage given in Section A, B and C in Part-3 of the Report.
	प्रतिवेदन अधिकारी के हस्ताक्षर
	Signature of the Reporting Officer
TOTAL .	
स्थान : Place:	नाम साफ अक्षरों मेंः Name in Block Letters
Place:	Name in Block Letters पदनामः
	Designation:
दिनांक:	प्रतिवेदन की अवधि में:
Date:	During the period of Report:

अधिकारी का नाम
Name of the Officer
रिपोर्ट की अवधि Reporting Period
भाग – 5
PART-5
1- पुनर्विलोकन अधिकारी की अभियुक्ति : REMARKS OF THE REVIEWING OFFICER
पुनर्विलोकन अधिकारी के अन्तर्गत सेवा काल Length of service under the Reviewing Officer
2- क्या आप भाग -3 व भाग -4 में निर्गत कार्य तथा विभिन्न गुणों के संबंध में प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा किये गये मूल्यांकन से सहमत है ? क्या आप अधिकारी की असाधारण उपलब्धियों / महत्वपूर्ण असफलताओं के संबंध में किये गये मूल्यांकन से सहमत है ? (संदर्भ भाग -3 (अ) (iv $\frac{1}{2}$ तथा भाग -4 (5)) (यदि आप प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा दिये गुणों के किसी संख्यात्मक मूल्यांकन से सहमत नहीं है त कृपया अपना मूल्यांकन इस खण्ड के दिये गये स्तम्भ में दें तथा विद्यमानता को आद्यक्षर करें) ।
Do you agree with the assessment made by the reporting officer with respect to the work output and the various attributes in Part-3 & Part-4? Do you agree with the assessment of reporting officer in respect o extraordinary achievements/significant failures of the officer reported upon? (Ref: Part-3(A)(iv) and Part 4(5))
(In case you do not agree with any of the numerical assessments of attributes please record you assessment in the column provided for you in that section and initial your entries.
हॉ नहीं Yes No
3- असहमत होने की स्थिति में कृपया इसके कारण बतायें, क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप कुछ बदलना या जोडना चाहते है ? In case of disagreement, please specify the reasons, is there anything you wish to modify or add?
4- पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा कलम तस्वीर । कृपया समालोचन करें (लगभग 100 शब्दों में) जिसमें अधिकारी की समस्त विशेषताओं की सामर्थ्य क्षेत्र एवं कम सामर्थ्य क्षेत्र एवं उसकी दुर्बल वर्गों के प्रति अभिवृत्ति शामिल हो ।
Pen Picture by Reviewing Officer. Please comment (in about 100 words) on the overall qualities of the officer including area of strengths and lesser strength and his attitude towards weaker sections.

	म दिए गए भाराश के आधार पर कुल मिलाकर संख्यात्मक वर्गाकरण। age given in Section –A, Section-B and Section-C in Part-3 of the
	पुनर्विलोकन अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Reviewing Officer
स्थानः Place:	नाम साफ अक्षरों में: Name in Block Letters : पदनामः
दिनांकः Date:	Designation: प्रतिवेदन की अवधि में : During the period of Report:
CE	ERTIFICATE
(In respect of ITS	S Group 'A', P&T BWS Officer)
	with the responsibility of maintenance of Circle copy of ne Field unit/Circle/Distt.)
the officer reported upon and all actions in co	r ACR) for the period has been disclosed to mpliance to the DOP&T O.M. No. 21011/1/2005-Estt.(A) (Pt. he Annual Performance Appraisal Report of the officer have
	Signature of the Incharge entrusted with the responsibility of maintenance of APAR in the Field unit/Circle/Distt.
	Name of the Officer
	Designation:
	Office

(Note: It must be ensured that while sending the DOT copy of APAR, this certificate must be duly filled up. In the absence of this certificate the APAR will not be accepted by DOT).

संख्यात्मक श्रेणीकरण के साथ एपीएआर भरने संबंध दिशानिर्देश Guidelines regarding filling up of APAR with numerical grading

- (i) एपीएआर के स्तम्भ विधिवत सावधानी और ध्यानपूर्वक तथा पर्याप्त समय देते हुए भरने चाहिए ।

 The columns in the APAR should be filled in with due care and attention and after devoting adequate time.
- (ii) यह आशा की जाती है कि 1 अथवा 2 के किसी वर्गीकरण (निर्गत कार्य या विशेषताओं या कुल मिलाकर श्रेणीकरण के प्रतिकूल) को विशिष्ट असफलताओं के मार्ग से कलम चित्र में पर्याप्त रूप से औचित्य दिया जाएगा और इसी प्रकार 9 अथवा 10 के किसी श्रेणी के संबंध में विशिष्ट उपलिब्धियों के संबंध में औचित्य किया जाएगा । श्रेणी 1–2 अथवा 9–10 विरल होती है अतः उनका औचित्य दिए जाने की जरूरत है । सांख्यिक श्रेणी प्रदान करते हुए प्रतिवेदन एवं पुनर्विलोकन प्राधिकारियों को किसी अधिकारी का दर्जा निर्धारण उनके अधीन बही संख्या में वर्तमान में कार्यरत सहयोगियों की तुलना में करना चाहिए ।

It is expected that any grading of 1 or 2 (against work output or attributes or overall grade) would be adequately justified in the pen-picture by way of specific failures and similarly, any grade of 9 or 10 would be justified with respect to specific accomplishments. Grades of 1-2 or 9-10 are expected to be rare occurrences and hence the need to justify them. In awarding a numerical grade the reporting and reviewing authorities should rate the officer against a larger population of his/her peers that may be currently working under them.

- (iii) एपीएआर का 8 से 10 के बीच का वर्गीकरण ''उत्कृष्ट' लिया जाएगा तथा सूचीकरण / प्रोन्नित के लिए औसत प्राप्तांक की गणना करने के लिए प्राप्तांक 9 दिया जाएगा ।
 - APARs graded between 8 to 10 will be rated as "Outstanding" and will be given a score of 9 for the purpose of calculating average scores for empanelment/promotion.
- (iv) एपीएआर का 6 तथा 8 से छोटा के बीच का वर्गीकरण 'बहुत अच्छा' लिया जाएगा तथा प्राप्तांक 7 दिया जायेगा

APARs graded between 6 and short of 8 will be rated as "Very Good" and will be given a score of 7.

- (v) एपीएआर का 4 तथा 6 से छोटा के बीच का वर्गीकरण "अच्छा" लिया जाएगा तथा प्राप्तांक 5 दिया जायेगा । APARs graded between 4 and 6 short of 6 will be rated as "Good" and given a score of 5.
- (vi) एपीएआर का 4 से कम वर्गीकरण "शून्य" लिया जायेगा । APARs graded below 4 will be given a score of "Zero".

APARS graded below 4 will be given a score of Zero.

भारतीय दूरसंचार विभाग के भिन्न—भिन्न वर्गी द्वारा एपीएआर प्रपत्र भरते समय रंग योजना के संबंध में दिशानिर्देश ।

<u>Guidelines regarding the colour scheme to be used by different grades of officers in DOT while filling up their APAR form</u>

 (1) हरा
 उच्च प्रशासिनक श्रेणी एवं उपर

 Green
 SAG Level & above

(2) पीला – कनिष्ठ, वरिष्ठ समयमान व कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी

Yellow - JTS, STS & JAG

(3) सफेद - वर्ग 'ख' White - Gr "B"